



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 32] नई दिल्ली, अक्टूबर 30—नवम्बर 5, 2016, शनिवार/कार्तिक 8—कार्तिक 14, 1938
No. 32] NEW DELHI, OCTOBER 30—NOVEMBER 5, 2016, SATURDAY/ KARTIKA 8—KARTIKA 14, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग

आदेश

नई दिल्ली, 18 अक्टूबर, 2016

आ.अ. 72.—यतः निर्वाचन आयोग का समाधान हो गया है कि नीचे की सारणी के स्तम्भ (2) में यथा विनिर्दिष्ट झारखंड राज्य से विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2014 के लिए जो स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट निर्वाचन क्षेत्र से हुआ है स्तम्भ (4) में उसके सामने विनिर्दिष्ट निर्वाचन लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा अपेक्षित उक्त सारणी के स्तम्भ (5) में यथादर्शित अपने निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहा है;

और, यतः उक्त अभ्यर्थियों ने, सम्यक् सूचना दिए जाने पर भी उक्त असफलता के लिए कोई कारण अथवा स्पष्टीकरण नहीं दिया है या उनके द्वारा दिये गये अभ्यावेदनों पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् निर्वाचन आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास उक्त असफलता के लिए कोई पर्याप्त कारण या न्यायौचित्य नहीं है।

अतः अब, निर्वाचन आयोग उक्त अधिनियम की धारा 10-क के अनुसरण में नीचे की सारणी के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट व्यक्तियों को संसद के किसी भी सदन के या किसी राज्य/संघ राज्य की विधान सभा अथवा विधान परिषद् के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित घोषित करता है :—

सारणी

क्रम सं.	निर्वाचन का विवरण	विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या व नाम	अभ्यर्थी का नाम व पता	निर्हरता का कारण
1	2	3	4	5
1	झारखंड विधान सभा का साधारण निर्वाचन, 2014	55-मनोहरपुर (अ0ज0जा0)	मनसुक कुजूर, ग्राम-राजनगर, पोस्ट- राजनगर, थाना- राजनगर, जिला-सरायकेला-खरसावाँ, झारखण्ड।	निर्वाचन व्ययों का कोई भी लेखा दाखिल करने अथवा रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे।
2	-वही-	-वही-	मोरन सिंह चाकी, ग्राम-कोंकोवा, पोस्ट- सरजमहातु, थाना- सोनुवा, जिला- पश्चिम सिंहभूम, झारखण्ड।	-वही-
3	-वही-	68-गुमला(अ.ज.जा.)	ललित एक्का, ग्राम- सिसई रोड, डुम्बर टोली, गुमला, पो0+थाना +जिला-गुमला, पिन-835207 झारखण्ड।	-वही-
4	-वही-	-वही-	सुनील कुल्लू, ग्राम- वृन्दा, पो0-डुमरडीह, थाना -गुमला, जिला-गुमला, झारखण्ड।	-वही-

[सं. 76/झार.-वि.स./2014]

आदेश से,

के. एन. भार, सचिव

ELECTION COMMISSION OF INDIA

ORDER

New Delhi, the 18th October, 2016

O.N. 72.—Whereas, the Election Commission is satisfied that each of the contesting candidates specified in column (4) of the Table below at the General Election to the Legislative Assembly, 2014 from the State of Jharkhand as specified in column (2) held from the constituency specified in column(3) against his/her name, has failed to lodge any account of his/her election expenses at all or in the manner as required by the Representation of the People Act, 1951, and the rules made thereunder as shown in column(5) of the said Table;

And whereas, the said candidates have either not furnished any reason or explanation for the said failure even after due notice of the Election Commission, or after considering the representation if any, made by them, the Election Commission is satisfied that they have no good reason or justification for the said failure;

Now, therefore, pursuance of Section 10A of the said Act, the Election Commission hereby declares the persons specified in column (4) of the Table below to be disqualified for being chosen as, and for being a member of either House of the Parliament or of the Legislative Assembly or Legislative Council of a State/Union Territory for a period of three years from the date of this order:-

TABLE

S.No.	Particulars of Election	Number & Name of the Assembly Constituency	Name & Address of the Candidate	Reason of disqualification
1	2	3	4	5
1	General Election to the Legislative Assembly 2014 from the State of Jharkhand.	55-Manoharpur (ST)	Mansuk Kujur, Vill.- Rajnagar, P.O.- Rajnagar, P.S.- Rajnagar, Dist.- Saraikela-Kharsawan, Jharkhand-831002.	Failed to lodge any account of election expenses or in the manner as required under the Act.
2	-do-	- do -	Moran Singh Chaki, Vill.- Konkowa, P.O. – Sarjomhatu, P.S. – Sonua, Distt. West Singhbhum, Jharkhand. Pin-833102.	-do-
3	-do-	68-Gumla(ST)	Lalit Ekka, Vill-Sisai Road Dumbertoli, Post +P.S.+Distt. -Gumla, Pin-835207	-do-
4.	-do-	-do-	Sunil Kullu, Village-Brinda, Post-Dumardih, P.S.-Gumla, Distt.-Gumla. Jharkhand.	-do-

[No. 76/JKD-LA/2014]

By Order,

K. N. BHAR, Secy.

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

नई दिल्ली, 1 नवम्बर, 2016

आ.अ. 73.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 के 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग राजस्थान राज्य सरकार के परामर्श से एतद्द्वारा श्री अश्वनी भगत, आई.ए.एस. (आर.जे.: 1995) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए राजस्थान राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री अश्वनी भगत राजस्थान सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे जो कि वह ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री अश्वनी भगत, मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजस्थान के रूप में कार्य करते हुए राजस्थान सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार का सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[सं. 154/राज./2016-पी. प्रशा.]

आदेश से,

स्टैण्डहोप युहलुंग, प्रधान सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

New Delhi, the 1st November, 2016

O.N. 73.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Rajasthan hereby nominates Shri Ashwani Bhagat, IAS (RJ:1995) as the Chief Electoral Officer for the State of Rajasthan with effect from the date he takes over charge and until further orders.

2. Shri Ashwani Bhagat shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Rajasthan, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Ashwani Bhagat while functioning as the Chief Electoral Officer, Rajasthan shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Rajasthan except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[No. 154/RJ/2016-P.Admn]

By Order,

STANDHOPE YUHLUNG, Principal Secy.